

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2726]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2013/अग्राहायण 18, 1935

No. 2726]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2013/AGRAHAYANA 18, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3599(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1319 (अ) तारीख 20 मई, 2013 जो भारत के राजपत्र तारीख 22 मई, 2013 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में कोटा संस्थापन से जौबनेर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए कोटा-जौबनेर पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 1.9.2013 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : मालपुरा		जिला : टोंक	राज्य : राजस्थान
क्र० सं०	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2	3	4
1	नयागाँव (लावा)	1775	0.1080
		1777	0.0018
		1774	0.0324
		1765	0.0216
		1766	0.1008
		1773	0.0360
		1771	0.0360
		1770	0.1512
		1747	0.0144
		1792	0.0864
		1793	0.0432
		1794	0.0864
		1799	0.0648
		1800	0.1224
		1801	0.0864
		1803	0.0030
		1822	0.0540
		1821	0.0108
		1820	0.1656
		1807	0.1116
		1808	0.0288
		1809	0.1044
		1810	0.0036
		1812	0.0360
		1811	0.0792
		1453	0.0144
		1467	0.0864
		1469/1	0.2340
		1469/2	0.0018
		1464	0.0108
		1465	0.0018
		1463	0.0252
		1462	0.0684
		1461	0.0576

	नयागाँव (लावा)	1433	0.3168
		1431	0.3096
		1427	0.0180
		1413	0.0126
		1412	0.3816
		1396	0.0828
		1397	0.3168
		1398	0.0036
2	गणेशपुरा (लावा)	586	0.0126
		583	0.0180
		585	0.1620
		587	0.4032
3	भैरुपुरा	957	0.1188
		958	0.2412
		960/1	0.0936
		960/2	0.0828
		962	0.1412
		965	0.6048
4	बालापुरा (लावा)	1099	0.8136
		1050	0.1296
		1051	0.1008
		1052	0.0648
		1054	0.1044
		1059	0.0756
		1058	0.0018
		1063	0.0936
		1064	0.0792
		1065	0.0792
		1066	0.0018
		1067	0.1422
		1068	0.0612
		1069	0.027
5	अजमेरी	1455	0.3456
		1454	0.1584
		1453	0.3960
		1401	0.5400
		1399	0.1008
		1395	0.0828
		1389/1	0.0900
		1389/2	
		1390	0.1440

	अजमेरी (जारी...)	1388	0.1296
		1210/1	0.3888
		1211	0.0072
		1212	0.0072
		1216/1	0.1440
		1216/2	
		1218	0.0360
		1215	0.0036
		1219	0.0900
		1220	0.0036
		1221	0.1296
		1226	0.0180
		1227	0.0144
		1286	0.0036
		1228	0.0018
		1229	0.1224
		1244	0.0054
		1233	0.0018
		1232	0.0216
		1231	0.0432
		1230	0.0504
		1237	0.0054
		1238	0.0864
		1242	0.0036
		1241	0.1170
		1240	0.1080
		1259	0.0576
		1260	0.0090
		750	0.0720
		749	0.0018
		751	0.0756
		753	0.0432
		754	0.0432
		755	0.0936
		756	0.0576
		758	0.0504
		759	0.0252
		760	0.1080
		665	0.0936
		663	0.0540
		664	0.0090
		662	0.0432

	अजमेरी (जारी...)	657	0.0648
		643	0.0468
		644	0.0864
		641	0.0144
		638	0.0576
		636	0.0576
		635	0.0576
		634	0.0360
		632	0.0720
		631	0.0648
		630	0.0540
		629	0.0036
		351	0.0504
		352	0.009
		353	0.0054
		354	0.0036
		355	0.0360
		356	0.0504
		357	0.108
		358	0.1296
		382	0.0576
		381	0.0090
		385	0.0090
		387	0.144
		393	0.1872
		392	0.072
		61	0.1296
		59	0.1440
		62	0.1872
		58	0.216
		64	0.0072
		42	0.1872
		43	0.1080
		44	0.1152
		8	0.3096
		9	0.0054
		6	0.2304
6	सोड़ा बावड़ी	2518	0.2016
		2517	0.0144
		2515	0.0144
		2519	0.0072

6	सोड़ा बावड़ी (जारी.....)	2516	0.1080
		427	0.1080
		428	0.1008
		429	0.0072
		430	0.0720
		439	0.1224
		438	0.0360
		432	0.1224
		433	0.1584
		434	0.0864
		435	0.0360
		457	0.0072
		458	0.0720
		463	0.0360
		464	0.0576
		466	0.0036
		465	0.0180
		472	0.0864
		474	0.0144
		473	0.0720
		476	0.0360
		499	0.1944
		498	0.0216
		497	0.0432
		496	0.0648
		495	0.0504
		532	0.0072
		502	0.0144
		512	0.0576
		516	0.1584
		515	0.0216
		514	0.1440
		518	0.0216
		366	0.0792
		525	0.0504
		787	0.0936
		364	0.0036
		363	0.144
		792	0.0432
		793	0.1584
		791	0.0018
		795	0.1440
		798	0.0144

6	सोड़ा बावड़ी (जारी.....)	799	0.0072
		836	0.0216
		818	0.0036
		817	0.0864
		819	0.0360
		820	0.0360
		821	0.0090
		822	0.0936
		827	0.1584
		829	0.1512
		831	0.1584
		919	0.0648
		920	0.0018
		917	0.0036
		918	0.0504
		2519	0.0036
7	नारायणपुरा	938	0.0018
		942	0.1008
		937	0.2160
		943	0.1008
		945	0.0360
		946	0.0072
		947	0.1296
		948	0.0036
		156	0.0054
		155	0.1080
		159	0.0792
		154	0.0288
		160	0.2376
		147	0.0288
		148	0.1512
		150	0.0720
		149	0.0270
		108	0.0216
		90	0.1728
		93	0.0018
		91	0.0864
		92	0.0648
		87	0.2160
		96	0.2880
		15	0.1800

7	नारायणपुरा	14	0.6120
		9	0.2880
		4	0.0360

[फा. सं. आर-31015/33/13-ओआर-1]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2013

S.O. 3599 (E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.1319 (E) dated 20th May, 2013 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) published in the Gazette of India dated the 22nd May, 2013 the Central Government declared its intension to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying a pipeline for transportation of petroleum products through Kota – Jobner Pipeline Project from Kota to Jobner Terminal in the State of Rajasthan by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 01.09.2013;

And whereas the competent authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest of the date of the publication of this declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

TEHSIL : MALPURA		DISTRICT : TONK	STATE : RAJASTHAN
S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.	AREA IN HECTARE
1	2	3	4
1	NAYAGAON (LAWA)	1775	0.1080
		1777	0.0018
		1774	0.0324
		1765	0.0216
		1766	0.1008
		1773	0.0360
		1771	0.0360
		1770	0.1512
		1747	0.0144
		1792	0.0864
		1793	0.0432
		1794	0.0864
		1799	0.0648
		1800	0.1224

		1801	0.0864
		1803	0.0030
		1822	0.0540
		1821	0.0108
		1820	0.1656
		1807	0.1116
		1808	0.0288
		1809	0.1044
		1810	0.0036
		1812	0.0360
		1811	0.0792
		1453	0.0144
		1467	0.0864
		1469/1	0.2340
		1469/2	0.0018
		1464	0.0108
		1465	0.0018
		1463	0.0252
		1462	0.0684
		1461	0.0576
		1433	0.3168
		1431	0.3096
		1427	0.0180
		1413	0.0126
		1412	0.3816
		1396	0.0828
		1397	0.3168
		1398	0.0036
2	GANESHPURA (LAWA)	586	0.0126
		583	0.0180
		585	0.1620
		587	0.4032
3	BHAIRUPURA	957	0.1188
		958	0.2412
		960/1	0.0936
		960/2	0.0828
		962	0.1412
		965	0.6048
4	BALAPURA (LAWA)	1099	0.8136
		1050	0.1296
		1051	0.1008
		1052	0.0648
		1054	0.1044
		1059	0.0756
		1058	0.0018
		1063	0.0936
		1064	0.0792
		1065	0.0792
		1066	0.0018

	BALAPURA (LAWA) (Cont.)	1067	0.1422
		1068	0.0612
		1069	0.0270
5	AJMERI	1455	0.3456
		1454	0.1584
		1453	0.3960
		1401	0.5400
		1399	0.1008
		1395	0.0828
		1389/1	0.0900
		1389/2	
		1390	0.1440
		1388	0.1296
		1210/1	0.3888
		1211	0.0072
		1212	0.0072
		1216/1	0.1440
		1216/2	
		1218	0.0360
		1215	0.0036
		1219	0.0900
		1220	0.0036
		1221	0.1296
		1226	0.0180
		1227	0.0144
		1286	0.0036
		1228	0.0018
		1229	0.1224
		1244	0.0054
		1233	0.0018
		1232	0.0216
		1231	0.0432
		1230	0.0504
		1237	0.0054
		1238	0.0864
		1242	0.0036
		1241	0.1170
		1240	0.1080
		1259	0.0576
		1260	0.0090
		750	0.0720
		749	0.0018
		751	0.0756
		753	0.0432
		754	0.0432
		755	0.0936
		756	0.0576
		758	0.0504
		759	0.0252
		760	0.1080
		665	0.0936
		663	0.0540

5	AJMERI (Cont.)	664	0.0090
		662	0.0432
		657	0.0648
		643	0.0468
		644	0.0864
		641	0.0144
		638	0.0576
		636	0.0576
		635	0.0576
		634	0.0360
		632	0.0720
		631	0.0648
		630	0.0540
		629	0.0036
		351	0.0504
		352	0.0090
		353	0.0054
		354	0.0036
		355	0.0360
		356	0.0504
		357	0.1080
		358	0.1296
		382	0.0576
		381	0.0090
		385	0.0090
		387	0.1440
		393	0.1872
		392	0.0720
		61	0.1296
		59	0.1440
		62	0.1872
		58	0.2160
		64	0.0072
		42	0.1872
		43	0.1080
		44	0.1152
		8	0.3096
		9	0.0054
		6	0.2304
6	SODA BAWADI	2518	0.2016
		2517	0.0144
		2515	0.0144
		2519	0.0072
		2516	0.1080
		427	0.1080
		428	0.1008
		429	0.0072
		430	0.0720
		439	0.1224
		438	0.0360

6	SODA BAWADI (CONT....)	432	0.1224
		433	0.1584
		434	0.0864
		435	0.0360
		457	0.0072
		458	0.0720
		463	0.0360
		464	0.0576
		466	0.0036
		465	0.0180
		472	0.0864
		474	0.0144
		473	0.0720
		476	0.0360
		499	0.1944
		498	0.0216
		497	0.0432
		496	0.0648
		495	0.0504
		532	0.0072
		502	0.0144
		512	0.0576
		516	0.1584
		515	0.0216
		514	0.1440
		518	0.0216
		366	0.0792
		525	0.0504
		787	0.0936
		364	0.0036
		363	0.1440
		792	0.0432
		793	0.1584
		791	0.0018
		795	0.1440
		798	0.0144
		799	0.0072
		836	0.0216
		818	0.0036
		817	0.0864
		819	0.0360
		820	0.0360
		821	0.0090
		822	0.0936
		827	0.1584
		829	0.1512
		831	0.1584
		919	0.0648
		920	0.0018
		917	0.0036
		918	0.0504

		2519	0.0036
7	NARAYANPURA	938	0.0018
		942	0.1008
		937	0.2160
		943	0.1008
		945	0.0360
		946	0.0072
		947	0.1296
		948	0.0036
		156	0.0054
		155	0.1080
		159	0.0792
		154	0.0288
		160	0.2376
		147	0.0288
		148	0.1512
		150	0.0720
		149	0.0270
		108	0.0216
		90	0.1728
		93	0.0018
		91	0.0864
		92	0.0648
		87	0.2160
		96	0.2880
		15	0.1800
		14	0.6120
		9	0.2880
		4	0.0360

[F. No. R- 31015/ 33 /13- OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.